



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 11—सितम्बर 17, 2010 (भाद्रपद 20, 1932)
No. 37] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 11—SEPTEMBER 17, 2010 (BHADRA 20, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक
गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग

मुंबई-400005, दिनांक 13 अगस्त 2010

सं. गैबैपवि. 215/मुमप्र (यूएस)-2010--भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना आवश्यक है, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-इग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा यह घोषित करता है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत लाभ न कमाने वाली कम्पनी के रूप में पंजीकृत तथा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45-इक, 45-इख तथा 45-इग के उपबंध निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन के तहत लागू नहीं होंगे:--

- (i) कि यह कारपोरेशन अपने कार्य उन कार्यों तक सीमित रखेगा जिनके लिए उनकी स्थापना हुई है; तथा विशिष्ट कार्यों के सिवाय ऋण तथा अग्रिम जारी नहीं करेगा;
- (ii) 31 जनवरी 1998 की अधिसूचना सं. डीएफसी. 118/डीजी (एसपीटी)-98, समय-समय पर अद्यतनीकृत, के पैराग्राफ 2 (1)(xii) में यथा परिभाषित जनता से जमाराशियां न तो स्वीकार करेगा या न तो धारण करेगा;
- (iii) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-इग(ग) में उल्लिखित कोई कार्य, उक्त मद सं. (i) में वर्णित कार्य से भिन्न, नहीं करेगा।

उमा सुब्रमणियम
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

(7537)

मुम्बई-400001, दिनांक 18 अगस्त 2010

बैंपवि. सं. पीएसबीडी. 2866/16.01.056/2010-11--भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (ख) के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा दिनांक 12 अगस्त 2010 से उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची से निम्नलिखित बैंक को हटाने का निदेश देता है :--

"बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड"

आनंद सिन्हा
कार्यपालक निदेशक

राष्ट्रीय आवास बैंक
आवास वित्त कम्पनियां (रा.आ. बैंक) निर्देश, 2010

नई दिल्ली, दिनांक 20 अगस्त 2010

संख्या : एनएचबी. एचएफसी. डीआईआर. 1-सुधार/संशोधन/सीएमडी/2010--

क्रम संख्या	पेज संख्या	संदर्भ	मुद्रण में	सुधार/संशोधन
1.	6263	अनुसूची-II, भाग, झ-I(ii)	(ii) कंपनियों के शेयरों, संपरिवर्तनीय ऋण-पत्रों में निवेश और साम्य (इक्विटी) उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनितों में-- (क) (वाणिज्यिक पेपर सहित) कुल बकाया अग्रिमों के 5% अथवा (ख) यथा 31 मार्च को पूर्ववत् वर्ष के कम्पनी के निवल धन के 20% में से जोकि कम है, से अधिक है।	(ii) कंपनियों के शेयरों, संपरिवर्तनीय ऋण-पत्रों में निवेश और साम्य (इक्विटी) उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनितों में-- (क) विगत वर्ष की 31 मार्च को यथा आवास वित्त कम्पनी की निवल संपत्ति की 20 प्रतिशत से अधिक शेयरों, परिवर्तनीय बांडों/डिबेंचरों, इक्विटी अभिविन्यासी म्युचुअल फंड की यूनितों तथा उद्यम/जोखिम पूंजी (पंजीकृत तथा गैर पंजीकृत दोनों) में निवेश (ख) विगत वर्ष की 31 मार्च को यथा कंपनी की संपत्ति का 40% से अधिक पूंजी बाजार में सभी स्वरूपों में (निधि आधारित एवं गैर निधि आधारित दोनों का) कुल निवेश

आर. एस. गर्ग
महाप्रबंधक

वित्त मंत्रालय
(कार्पोरेशन बैंक)

मेंगलूर, दिनांक

एस.ओ.--बैंककारी कंपनी अधिनियम 1970 (1970 का 5) (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) की धारा 12 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 19 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्पोरेशन बैंक का निदेशक मण्डल भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करके और सरकारी पूर्वानुमति से कार्पोरेशन बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 में संशोधन करते हुए, निम्नवत् विनियम बनाता है, अर्थात् :--

1. (1) ये विनियम कार्पोरेशन बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2009 कहे जाएंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से लागू होंगे।

2. कार्पोरेशन बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 1995 में (जोकि आगे उक्त विनियम कहा गया है), विनियम 2, खंड (ओ) में उप खंड (सी) के लिए निम्नलिखित उप खंड प्रतिस्थापित होगा, अर्थात् :--

“(सी) विधवा या विवाहमुक्त पुत्री सहित पुत्र या पुत्री उनके 25 वर्ष की आयु तक या उसके विवाह या पुनर्विवाह तक जो भी पहले हो। यह वह पुत्र या पुत्री सहित है जो कानूनी तौर पर अपनाया/अपनाई गया/गई है।”

3. उक्त विनियमों में, उप-खंड (3) के बाद विनियम 8 में, निम्नवत् उप-खंड जोड़ा जाए :

“(4) न्यासी की नियुक्ति की अवधि 3 वर्षों के लिए होगी और बैंक ऐसे न्यासी की पुनर्नियुक्ति कर सकता है, जिसने अपनी अवधि पूरी की हो; बशर्ते कि किसी भी न्यासी की दो अवधियों से अधिक के लिए पुनर्नियुक्ति न हो।”

4. उक्त विनियमों में, विनियम 9 में, निम्नवत् परन्तुक जोड़ा जाए, यथा :

“बशर्ते कि ऐसे सभी निर्देश लिखित रूप में दिए जाएं और उससे प्रयोजन या लक्ष्य साधित हो।”

5. उक्त विनियमों में, विनियम 10, उप-खंड (2) में, प्रारंभ में “प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक सौ अस्सी दिनों के भीतर”, शब्दों के स्थान पर “बैंक के तुलन पत्र के प्रकाशन की तिथि से साठ दिनों के भीतर” शब्द प्रतिस्थापित होंगे।

पाद टिप्पणी :--मुख्य विनियम भारत के राजपत्र में 29.09.1995 को प्रकाशित किए गए थे तथा उसके पश्चात् किये गये संशोधन निम्नलिखित अधिसूचना संख्या में निम्नानुसार भारत के राजपत्र में प्रकाशित किये गये :--

अधिसूचना संख्या	दिनांक
25	16.03.2000
26	29.06.2002
3	11.01.2003

एन. आर. शेट
महाप्रबन्धक

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

चेन्नै-600014, दिनांक 18 अगस्त 2010

सं. क.भ.नि./रा.का./अ.कै.आ. (त.नाडु एवं केरल)/मि.सं.के.आर./2010 रा.का.--जबकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं के संबंध में नियोक्ता तथा बहुसंख्यक कर्मचारियों के बीच यह सहमति बन गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 13) के उपबंध उनके संबंधित स्थापनाओं पर लागू किए जाएं :--

क्रम सं.	कोड सं.	स्थापना का नाम	कवरेज तथा सहमति की तिथि
1	2	3	4
1.	के.आर./के.एन.आर./18600	मैसर्स सनशाइन प्लास्टिक्स, कण्णूर	01.05.2009
2.	के.आर./के.एन.आर./18601	मैसर्स एवरशाइन इण्डस्ट्रीज, कण्णूर	01.05.2009
3.	के.आर./के.एन.आर./18599	मैसर्स एवरशाइन प्लास्टिक्स इण्डस्ट्रीज, कण्णूर	01.05.2009
4.	के.आर./के.एन.आर./18567	मैसर्स ब्राऊनिस बेकरी एण्ड कॉफी पब	01.01.2009
5.	के.आर./के.एन.आर./18551	मैसर्स एटलस ज्वैल्लरी, कण्णूर	01.11.2008

1	2	3	4
6.	के.आर./के.एन.आर./18611	मैसर्स एक्वारियस फास्ट फूड, कण्णूर	01.06.2009
7.	के.आर./के.सी./24295	मैसर्स बेबी शॉप्पी, अल्पुझा, कण्णूर	01.05.2008
8.	के.आर./के.सी./24700	मैसर्स यूनिवर्सल ट्रेडर्स	01.04.2009
9.	के.आर./के.सी./24542	मैसर्स होटल श्री सरवण भवन	01.02.2009
10.	के.आर./के.सी./24150	मैसर्स स्काईटेक ट्रेड्स एण्ड कंस्ट्रक्शंस प्राईवेट लिमिटेड	01.01.2008
11.	के.आर./के.सी./24298	मैसर्स कल्याण फैंब्रिक्स	01.06.2008
12.	के.आर./के.सी./19629	मैसर्स मैकोट्रॉनिक्स	01.11.2002
13.	के.आर./के.सी./21977	मैसर्स लिक्वांग न्यूट्रास्यूटिकल्स लिमिटेड	01.08.2007
14.	के.आर./के.सी./19538	मैसर्स लियो एम्पोरियम	01.11.2001
15.	के.आर./के.सी./24502	मैसर्स एवरशाइन टाईल्स	01.12.2008
16.	के.आर./के.सी./24492	मैसर्स होली चाइल्ड सेन्ट्रल स्कूल	01.12.2008
17.	के.आर./के.सी./24526	मैसर्स रागम पोर्ट्रीज	01.01.2009
18.	के.आर./के.सी./24266	मैसर्स इयूटी प्री डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसिस (प्र.) लिमिटेड	01.06.2008
19.	के.आर./के.सी./24389	मैसर्स ए.वी.टी. गविया फूड्स प्राईवेट लिमिटेड	01.08.2008
20.	के.आर./के.सी./21581	मैसर्स एक्सटेंड इलैक्ट्रॉनिक्स (प्र.) लिमिटेड	01.10.2006
21.	के.आर./26111	मैसर्स डाईमेन्शन्स	01.07.2009
22.	के.आर./26110	मैसर्स सब-कोलिंग	01.04.2009
23.	के.आर./26109	मैसर्स कृपा एन्टरप्राईसिस	01.05.2009
24.	के.आर./22870	मैसर्स फिबटेल टेलिकॉम सोल्यूशन्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	01.02.2009
25.	के.आर./के.के./23493	मैसर्स डिमेस्को फुटकेयर इंडिया (प्र.) लिमिटेड	01.06.2008
26.	के.आर./के.के./14027	मैसर्स केरल यूनिन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स	01.08.1993
27.	के.आर./के.के./14096	मैसर्स टी.एन.वी.आर. कैफे	01.02.1994
28.	के.आर./के.के./23063	मैसर्स केरला होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट एसोसिएशन	01.12.2005

तो इसीलिए उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त एतद्वारा उक्त अधिनियम के उपबंध उपर्युक्त स्थापनाओं पर उक्त स्थापनाओं में प्रत्येक के नाम के सामने उल्लिखित तिथियों से लागू करते हैं।

के. श्रीनिवासन
अपर केन्द्रीय भ. नि. आयुक्त
तमिलनाडु एवं केरल

बैंगलूर-560025, दिनांक 16 अगस्त 2010

सं. कभनिस/अकेआ (क&गो)/नो.1(5-24)/568/2010-11--चूँकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को यह प्रतीत होता है कि निम्न स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता एवं अधिकतम कर्मचारियों ने कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंधों को उनके विभिन्न स्थापनाओं को विशेषतः नाम से लागू किए जाने हेतु सहमत हुए हैं :-

क्रम सं.	कोड नं.	स्थापना का नाम	व्याप्ति एवं सहमति की तिथि
1.	कर्नाटक/बैंगलूर/42306	मैसर्स बी.डी.आई इंडिया प्रा. लि.	01.06.2007
2.	कर्नाटक/मंगलूर/29401	मैसर्स वीणा इलेक्ट्रिकल्स	20.01.2003
3.	कर्नाटक/मंगलूर/31029	मैसर्स एच. एच. वी. पम्पस प्रा. लि.	01.06.2009
4.	कर्नाटक/मंगलूर/38525	मैसर्स पोस्ट एवं बी. एस. एन. एल. एम्पलाईज को-ऑपरेटिव सोसायटी लि.	01.08.2007
5.	कर्नाटक/मैसूर/36673	मैसर्स इंदुवलु एम.पी.सी.एस. लि.	01.06.2006
6.	कर्नाटक/मैसूर/36930	मैसर्स वर्षा इंडस्ट्रीज, मैसूर	01.05.2008
7.	कर्नाटक/मैसूर/36952	मैसर्स आर्चिड स्कूल, मैसूर	01.06.2008
8.	कर्नाटक/मैसूर/36967	मैसर्स गिडुविनहोसोहल्ली एम. पी. सी. एस. लि., मंडिया	01.07.2008
9.	कर्नाटक/मैसूर/36971	मैसर्स अगचहल्ली एम. पी. सी. एस. लि., मंडिया	01.07.2008
10.	कर्नाटक/मैसूर/36972	मैसर्स एम. पी. सी. एस. लि., हेगदहल्ली	01.07.2008
11.	कर्नाटक/मैसूर/36974	मैसर्स एम. पी. सी. एस. लि., कल्लेनहल्ली	01.07.2008
12.	कर्नाटक/मैसूर/36976	मैसर्स दोड्डचिक्कनहल्ली एम. पी. सी. एस. लि., मंडिया	01.07.2008
13.	कर्नाटक/मैसूर/36982	मैसर्स बेगमंगला वूमैस एम. पी. सी. एस. लि.	01.08.2008
14.	कर्नाटक/मैसूर/36987	मैसर्स गणपति एन्टरप्राइसिस	01.07.2008
15.	कर्नाटक/मैसूर/37000	मैसर्स गुलग वूमैस एम. पी. सी. एस. लि.	01.09.2008
16.	कर्नाटक/मैसूर/49001	मैसर्स मुद्दे गौडनदोड्डी एम. पी. सी. एस. लि., मलवल्ली	01.09.2008
17.	कर्नाटक/मैसूर/49042	मैसर्स बैरनहल्ली एम. पी. सी. एस. लि., नागमंगला	01.01.2009
18.	कर्नाटक/मैसूर/49050	मैसर्स टी. चिन्नपुरा एम. पी. सी. एस. लि.	01.01.2009
19.	कर्नाटक/मैसूर/49051	मैसर्स टी. एम. होसुरु वी. एस. एम. ब्यांक लि.	01.02.2009
20.	कर्नाटक/मैसूर/49131	मैसर्स प्रीमियर कंटेनर कांसेप्ट, नंजनगूड	01.11.2009
21.	कर्नाटक/हुबली/27506	मैसर्स बेलगाम अर्बन क्रेडिट सौहार्द सहकारी लि., समदेविगल्ली, बेलगाम	01.03.2004
22.	कर्नाटक/हुबली/40761	मैसर्स श्री गजराज विविदोद्देशगला सौहार्द सहकारी लि., बेलगाम	01.02.2008
23.	कर्नाटक/हुबली/40762	मैसर्स श्री भिमांबिक महिला विविदोद्देशगला सौहार्द सहकारी लि., बेलगाम	01.02.2008
24.	कर्नाटक/हुबली/40893	मैसर्स अभय पाडके, समदेविगल्ली, बेलगाम	01.06.2008

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त एतद्वारा उक्त अधिनियम को प्रावधानों को उक्त उल्लिखित स्थापनाओं को प्रत्येक स्थापना के सामने दर्शायी तिथि से लागू करते हैं।

ए. महेन्द्र राजु
अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय (कर्नाटक एवं गोवा)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 19 अगस्त 2010

सं. एन-15/13/13/2/2009--यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 अगस्त, 2010 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा उत्तराखण्ड कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ उत्तराखण्ड राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात् :--

राजस्व ग्राम का नाम	राजस्व परगना	राजस्व तहसील	राजस्व जिला
जशोधरपुर, बलभद्रपुर, सिताबपुर, सिडकुल, लोकमणीपुर, जयदेवपुर, मनदेवपुर, दलीपपुर, भुपदेवपुर गन्दरिपाखाण, श्रीरामपुर व कोटद्वार नगरपालिका क्षेत्र	कोटद्वार	कोटद्वार	पौड़ी

आर. सी. शर्मा
निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. एन-15/13/13/8/2002--यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 अगस्त, 2010 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा उत्तराखण्ड कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ उत्तराखण्ड राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात् :--

राजस्व ग्राम का नाम	राजस्व परगना	राजस्व तहसील	राजस्व जिला
विक्रमपुर, भौना इस्लामपुर, बदरीपुर, चकरपुर, जगन्नाथपुर, पिपलिया व बाजपुर नगरपालिका क्षेत्र	बाजपुर	बाजपुर	उधमसिंह नगर

आर. सी. शर्मा
निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. एन-15/13/13/10/2002--यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 अगस्त, 2010 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा उत्तराखण्ड कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ उत्तराखण्ड राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात् :--

राजस्व ग्राम का नाम	राजस्व परगना	राजस्व तहसील	राजस्व जिला
दादूवाला, पट्टी मनसा, तीरगढ़ी, नरायणपुर गोंगूवाला, हलदुआ साहू व जसपुर नगरपालिका क्षेत्र	जसपुर	जसपुर	उधमसिंह नगर

आर. सी. शर्मा
निदेशक (यो. एवं वि.)

दिनांक 22 अगस्त 2010

सं. एन-15/13/6/1/2010--यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 सितम्बर, 2010 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा केरल कर्मचारी राज्य बीमा नियम, 1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ केरल राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात् :--"कौलैकोड विल्लेज, नेडुमनगाड तालुक, तिरुवनन्तपुरम"

आर. सी. शर्मा
निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. एन-15/13/1/7/2000--यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 सितम्बर, 2010 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा आन्ध्र प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ आन्ध्र प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात् :--

"महबूबनगर जिले के बालानगर मण्डल में स्थित अग्रहारम् पोटलपल्लि, अप्पाजीपल्लि, बालानगर, बीबीनगर, बोडजनपेट, गौतापुर, गुंदेड, गुन्दलपोटलपल्लि, कोतिरेड्डिपल्लि, माचारम्, मोतिषनापूर, नन्दारम्, नेरेल्लपल्लि, पेददाइपल्लि रंगारेड्डिगूडा, सेरिगूडा, वनमवानिगूडा तथा राजापुर राजस्व गांव की सीमा के अंतर्गत सभी क्षेत्र।"

आर. सी. शर्मा
निदेशक (यो. एवं वि.)

RESERVE BANK OF INDIA
(DEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISION)

Mumbai-400005, the 13th August 2010

No. DNBS. 215/CGM (US)-2010—The Reserve Bank of India, on being satisfied that it is necessary so to do, in exercise of its powers conferred under Section 45NC of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) hereby declares that the provisions of Sections 45IA, 45IB and 45IC of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) shall not apply to National Skill Development Corporation (NSDC), being a company registered as non-profit company under Section 25 of the Companies Act, 1956 and regulatory oversight to NSDC being provided through the Board of trustees of National Skill Development Fund (NSDF), subject to compliance with the following conditions :—

- (i) That it will confine its activities to the specific objectives for which it was set up; and not issue loans and advances except for the specific purpose;
- (ii) Will not accept or hold public deposits as defined in paragraph 2(1)(xii) of the Notification No. DFC 118/DG(SPT)-98 dated January 31, 1998 and updated from time to time.
- (iii) Not carry on any other financial activity referred to in Section 45 I(c) of the RBI Act, 1934 except as referred to at (i) above.

UMA SUBRAMANIAM
Chief General Manager-In-Charge

Mumbai-400001, the 18th August 2010

DBOD. No. PSBD/2866/16.01.056/2010-11—In pursuance of Clause (b) of section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs exclusion with effect from close of business on August 12, 2010 from the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely :—

“Bank of Rajasthan Ltd.”

ANAND SINHA
Executive Director

NATIONAL HOUSING BANK

New Delhi, the 20th August 2010

The Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2010

No. NHB.HFC.DIR.1-Corrigendum/Amendment/CMD/2010—

Sl. No.	Page No.	Reference	as of Print	as of correction/amendment
1.	6300	under the caption National Housing Bank, New Delhi, the 10th June 2010	as of Print	The Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2010
2.	6306	Chapter-II, Paragraph 3(ii)	Approved credit rating Age	Approved Credit Rating Agencies
3.	6344	Schedule-II Half Yearly Return-Part-I (ii)	(ii) Investments in shares, convertible debentures of corporates and units of equity-oriented mutual funds, in excess of (a) 5 per cent of the total outstanding advances (including commercial paper) or (b) 20 per cent of the net worth of the company as on March 31 of the previous year, whichever is lower	(ii) Investment in shares, convertible debentures of corporates and units of equity oriented mutual funds, in excess of (a) Investment in shares, convertible bonds/debentures, units of equity oriented mutual funds and all exposures to Venture Capital funds (VCFs) (both registered and unregistered) of the housing finance company in excess of 20 per cent of its net worth as on March 31, of the previous year. (b) The aggregate exposure to the capital market in all forms (both fund based and non-fund based) in excess of 40 per cent of its net worth as on March 31, of the previous year.

R. S. GARG
General ManagerMINISTRY OF FINANCE
CORPORATION BANK

Mangalore, the

In exercise of the powers conferred by Section 19, read with sub-section (2) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the

Corporation Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Government, hereby makes the following regulations further to amend the Corporation Bank (Employees' Pension Regulations, 1995, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Corporation Bank (Employees' Pension (Amendment) Regulations, 2009.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Corporation Bank (Employees' Pension Regulations, 1995, (hereinafter referred as the said regulations), in regulation 2, in clause (o), for sub-clause (c), the following sub-clause shall be substituted, namely :—
“(c) son or daughter including widow or divorced daughter till he or she attains the age of twenty five years or upto his or her marriage or re-marriage, whichever is earlier including such son or daughter adopted legally.”
3. In the said regulations, in regulation 8 after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted namely :—
“(4) The term of appointment of trustee shall be for a period of three years and the Bank may re-appoint a trustee who has already completed his term; provided that no trustee shall be appointed for more than two terms.”
4. In the said regulations, in regulation 9, the following proviso shall be inserted, namely :—
“Provided that all such direction shall be given in writing and shall specify the purpose or objective”.
5. In the said Regulations, regulation 10, in sub-regulation (2), in the opening portion, for the words “Within one hundred and eighty days from the closing of each financial year”, the words “Within sixty days from the date of publication of the Balance Sheet of the Bank” shall be substituted.

N. R. SHET
General Manager (HRM)

Footnote :—The Principal Regulations were published in the Gazette of India on 29.09.1995 and subsequent amendments published in the Gazette of India as under :—

Notification No.	Date
25	16.03.2000
26	29.06.2002
3	11.01.2003

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

Chennai-600014, the 8th August 2010

No. EPF/SO/ACC (TN&KR)/F. No. KR/02/2010—S.O. Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provision of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

Sl. No.	Code No.	Name of the Establishment	Date of Coverage & Consent
		3	4
1.	KR/KNR/18600	M/s. Sunshine Plastics Kannur	01.05.2009
2.	KR/KNR/18601	M/s. Evershine Industries, Kannur	01.05.2009

1	2	3	4
3.	KR/KNR/18599	M/s. Evershine Plastic Industries, Kannur	01.05.2009
4.	KR/KNR/18567	M/s. Brownies Bakery & Coffee Pub	01.01.2009
5.	KR/KNR/18551	M/s. Atlas Jewellery, Kannur	01.11.2008
6.	KR/KNR/18611	M/s. Aquarius Fast food, Kannur	01.06.2009
7.	KR/KC/24295	M/s. Baby Shoppy, Alappuzha, Kannur	01.05.2008
8.	KR/KC/24700	M/s. Universal Traders	01.04.2009
9.	KR/KC/24542	M/s. Hotel Srisaravana Bhawan	01.02.2009
10.	KR/KC/24150	M/s. Skytech Trades & Constructions Pvt. Ltd.	01.01.2008
11.	KR/KC/24298	M/s. Kalyan Fabrics	01.06.2008
12.	KR/KC/19629	M/s. Mechatronics	01.11.2002
13.	KR/KC/21977	M/s. Livlong Nutraceuticals Ltd.	01.08.2007
14.	KR/KC/19538	M/s. Leo Emporium	01.11.2001
15.	KR/KC/24502	M/s. Evershine Tiles	01.12.2008
16.	KR/KC/24492	M/s. Holy Child Central School	01.12.2008
17.	KR/KC/24526	M/s. Ragam Potteries	01.01.2009
18.	KR/KC/24266	M/s. Duty Free Distribution Services (P) Ltd.	01.06.2008
19.	KR/KC/24389	M/s. AVT Gavia Foods Pvt. Ltd.	01.08.2008
20.	KR/KC/21581	M/s. Extend Electronics (P) Ltd.	01.10.2006
21.	KR/26111	M/s. Dimensions	01.07.2009
22.	KR/26110	M/s. Sub-Colling	01.04.2009
23.	KR/26109	M/s. Kripa Enterprises	01.05.2009
24.	KR/22870	M/s. Fibtel Telecom Solutions (India) Pvt. Ltd.	01.02.2009
25.	KR/KK/23493	M/s. Dimesco Footcare India (P) Ltd.	01.06.2008
26.	KR/KK/14027	M/s. Kerala Union of Working Journalists	01.08.1993
27.	KR/KK/14096	M/s. TNVR Cafe	01.02.1994
28.	KR/KK/23063	M/s. Kerala Hotel and Restaurant Association	01.12.2005

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the dates mentioned against the names of each of the said establishments.

K. SRINIVASAN
Additional Central P. F. Commissioner
(Tamil Nadu & Kerala)

Bangalore-560025, the 16th August 2010

No. EPFO/ACC(K&G)/Vol.-Cov(5-24)/568/2010-11—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provision of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions, Act 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

Sl. No.	Code	Name of the establishment	Date of Coverage & Consent
1.	KN/BNG/42306	M/s. BDI India Pvt. Ltd	01.06.2007
2.	KN/MNG/29401	M/s. Veena Electricals	20.01.2003
3.	KN/MNG/31029	M/s. HHV Pumps Pvt. Ltd	01.06.2009
4.	KN/MNG/38525	M/s. Post & BSNL Employees Co-operative Society Ltd.	01.08.2007
5.	KN/MYS/36673	M/s. Induvalu MPCs Ltd	01.06.2006
6.	KN/MYS/36930	M/s. Varsha Industries, Mysore	01.05.2008
7.	KN/MYS/36952	M/s. Orchids School, Mysore	01.06.2008
8.	KN/MYS/36967	M/s. Giduvinahosohalli MPCs Ltd, Mandya	01.07.2008
9.	KN/MYS/36971	M/s. Agachahalli MPCs Ltd, Mandya	01.07.2008
10.	KN/MYS/36972	M/s. MPCs Ltd, Heggadahalli	01.07.2008
11.	KN/MYS/36974	M/s. MPCs Ltd, Kallenahalli	01.07.2008
12.	KN/MYS/36976	M/s. Dhoddachikanahalli MPCs Ltd, Mandya	01.07.2008
13.	KN/MYS/36982	M/s. Begamangala Women's MPCs Ltd	01.08.2008
14.	KN/MYS/36987	M/s. Ganapathi Enterprises	01.07.2008
15.	KN/MYS/37000	M/s. Gulagatta Women MPCs Ltd	01.09.2008
16.	KN/MYS/49001	M/s. Mudde Gowdanadoddi MPCs Ltd, Malavalli	01.09.2008
17.	KN/MYS/49042	M/s. Byaranahalli MPCs Ltd, Nagamangala	01.01.2009
18.	KN/MYS/49050	M/s. T. Chinnapura MPCs Ltd	01.01.2009
19.	KN/MYS/49051	M/s. T. M. Hosuru VSS Bank Ltd	01.02.2009
20.	KN/MYS/49131	M/s. Premier Container Concept, Nanjangud	01.11.2009
21.	KN/HBL/27506	M/s. The Belgaum Urban Credit Souhard Sahakari Ltd, Samadevigalli, Belgaum	01.03.2004
22.	KN/HBL/40761	M/s. Shree Gajaraj Vividhuyodheshagala Souhard Sahakari Niyamit, Belgaum	01.02.2008
23.	KN/HBL/40762	M/s. Shree Bhimambika Mahila Vividhudheshagala Souhard Sahakari Niyamit, Belgaum	01.02.2008
24.	KN/HBL/40893	M/s. Abhay Phadke, Samadevigalli, Belgaum	01.06.2008

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of the Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the dates mentioned against the names of each of the said establishments.

A. MAHENDRA RAJU
Additional Central P.F. Commissioner (KN&GOA)

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 19th August 2010

No. N-15/13/13/2/2009-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st August, 2010 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Uttarakhand Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Uttarakhand namely :—

Name of the Revenue Village	Revenue Pargana	Revenue Tehsil	District
Jashodharpur, Balbhadrapur, Sitabpur SIDCUL, Lokmanipur, Jaydevpur, Mandevpur, Dalippur, Bhupdevpur, Gandripakhan, Srirampur & Municipal Limits of Kotdwar.	Kotdwar	Kotdwar	Paudi

R. C. SHARMA
Director (P&D)

No. N-15/13/13/8/2002-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st August, 2010 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Uttarakhand Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Uttarakhand namely :—

Name of the Revenue Village	Revenue Pargana	Revenue Tehsil	District
Vikrampur, Bhona Islampur, Chakarpur, Badaripur, Jagannathpur, Pipaliya and Municipal Limits of Bajpur	Bajpur	Bajpur	Udhamsingh Nagar

R. C. SHARMA
Director (P&D)

No. N-15/13/13/10/2002-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st August, 2010 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Uttarakhand Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Uttarakhand namely :—

Name of the Revenue Village	Revenue Pargana	Revenue Tehsil	District
Daduwala, Patti Mansa Teergarhi, Narainpur, Ganguwala, Haldua Sahu and Municipal Limits of Jaspur	Jaspur	Jaspur	Udhamsingh Nagar

R. C. SHARMA
Director (P&D)

The 22nd August 2010

No. N-15/13/6/1/2010-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st September, 2010 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Kerala Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Kerala namely :—

“Kolaikkode Village in Nedumangadu Taluk in Thiruvananthapuram District.”

R. C. SHARMA
Director (P&D)

No. N-15/13/1/7/2000-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st September, 2010 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Andhra Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Andhra Pradesh namely :—

“All the Areas Falling within the Limits of Revenue Villages of Agraharam Potlapally, Appajipally, Balanagar, Bibinagar, Bodajanampet, Goutapur, Gunded, Gundlapotlapally, Kethiredipally, Machram, Motighanapur, Nandaram, Nerellapally, Peddaipally, Rangareddyguda, Seriguda, Vnamavaniguda and Rajapur in Balanagar Mandal of Mahaboobnagar District.”

R. C. SHARMA
Director (P&D)